

जोधपुर: नकली शराब बनाने के कारखाने का हुआ खुलासा, भारी मात्रा में अवैध सामग्री जब्त

टीम ने मौके से 50-50 लीटर स्पिरिट से भरे 49 ड्रम के साथ करीब 12 हजार बोतलें, शराब बोतलों के ढक्कन, एसेंस, लेबल सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त की।



आरोपी प्रदेश में भी इस अवैध और नकली शराब की सप्लाई करते थे।

भवानी भाटी/जोधपुर: आबकारी विभाग जोधपुर की टीम को शुक्रवार को **अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान** के तहत बड़ी सफलता मिली है।

आबकारी थाना पश्चिम की टीम ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के भेरूनगर इलाके में एक मकान पर दबिश देकर स्पिरिट से नकली शराब बनाने के कारखाने का खुलासा किया है।

टीम ने मौके से 50-50 लीटर स्पिरिट से भरे 49 ड्रम के साथ करीब 12 हजार बोतलें, शराब बोतलों के ढक्कन, एसेंस, लेबल सहित भारी मात्रा में सामग्री जब्त की। वहीं, आरोपी मौके पर नहीं मिले। टीम ने **अवैध नकली शराब** बनाने में लिप्त लोगो को नामजद कर आरोपियों की तलाश शुरू की है।

दरअसल, थाना पश्चिम जोधपुर के थाना अधिकारी नितिन दवे ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा अवैध नकली शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आबकारी थाना पश्चिम को सूचना मिली कि जोधपुर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके के भेरूनगर में एक मकान में अवैध नकली शराब बनाने का काला कारोबार चल रहा है।

इस पर टीम ने मौके पर आकर देखा तो मकान पर ताला लगा हुआ मिला। इसके बाद टीम ने ताला खुलवा कर मकान में दबिश दी तो मौके से भारी मात्रा में कच्ची स्पिरिट के करीब 50 ड्रम मिले। साथ ही यहां पर करीब 12 हजार शराब की बोतलें, 2 बोरों में भरे शराब की बोतलों के ढक्कन, विभिन्न ब्रांड की व्हिस्की के लेबल जिन पर फॉर सेल इन चंडीगढ़ लिखा हुआ मिला को जब्त किया। उन्होंने बताया कि यहां पर जब्त की सामग्री से ऐसा प्रतीत होता है कि यहां पर कच्ची स्पिरिट से नकली शराब बनाने का कारोबार चल रहा था। हालांकि मौके पर कोई भी आरोपी नहीं मिला।

टीम ने इस मामले में अवैध नकली शराब बनाने वाले लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। जांच में यह भी बात सामने आई कि आरोपी अन्य राज्यों के साथ प्रदेश में भी इस अवैध और नकली शराब की सप्लाई करते थे। फिलहाल आबकारी टीम इसकी जांच में जुटी हुई है।